

सोने एवं चांदी
आभूषणों
के विक्रेता
माँ दुर्गा ज्वेलर्स
उचित ब्याज में गिरवी रखी जाती है
शॉप नं. 69, सी-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई
मो. 9424124911

कांग्रेस में राहुल-प्रियंका तो भाजपा में मोदी के बाद योगी-हेमंता की डिमांड!

मुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाने चल रही मारामारी

श्रीकंचनपथ इलेक्शन न्यूज



भिलाई। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। प्रथम चरण के लिए तो यह अभियान पूरा शबाब पर है। दोनों ही दलों कांग्रेस व भाजपा के नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में कुछ खास नेताओं या स्टार प्रचारकों की जमकर डिमांड देखी जा रही है। प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस में जहां राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड़ा की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वहीं भाजपा में पीएम मोदी के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व असम के सीएम हेमंता बिस्व सरमा की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों ने अपने-अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची के ज्योतावर नामों को लेकर प्रत्याशियों में न कोई उत्साह है, न ही वे इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। जातीय समीकरणों और दीगर राज्यों के मतदाताओं को देखते हुए कुछ स्टार प्रचारकों को बुलाने जाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से हर प्रत्याशी को दिल्ली के बड़े चेहरों पर ज्यादा दिलचस्पी है। कांग्रेस में राहुल व प्रियंका के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी प्रत्याशी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं भाजपा में गृहमंत्री अमित शाह व क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग स्टार प्रचारकों की डिमांड की जा रही है।

ये हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, सिद्धार्थ मेल्या, शुकल, टीएस सिंह देव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, फूलो देवी नेताम, मोहन

क्षेत्रीयता के हिसाब से भी प्रचार

जबकि एससी-एसटी आरक्षित सीटों आदिवासी नेताओं और एससी वर्ग से आने वाले बड़े नेताओं की डिमांड बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से आई है। इसके अलावा फिल्मी सितारों और फिल्मी जगत से राजनीति में उतरे नेता जिनमें मनोज तिवारी, सनी देओल और हेमा मालिनी की भी चुनाव प्रचार में डिमांड है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचार में डिमांड के साथ-साथ ग्लेमर का तड़का भी लगवाना चाहते हैं।

भाजपा के स्टार प्रचारक

पीएम नरेंद्र मोदी, जगत्प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ओमप्रकाश माथुर, मनसुख लाल मांडविया, योगी आदित्यनाथ, अजय माकन, अरुण सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मनंद प्रधान, मनभद्र तेली, देवेन्द्र फडणवीस, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर प्रसाद, अरुण साव, रमन सिंह,

कांग्रेस में राहुल-प्रियंका

वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी डिमांड देखी जा रही है। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी इन्हीं नेताओं का प्रचार अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में सीएम भूपेश बघेल जैसे मझे हुए नेताओं की भी डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी कुछ और चेहरों को भी अपने क्षेत्र में देखने को आतुर हैं। राज्य में पहले चरण के प्रचार अभियान अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। दोनों ही दलों का पूरा जोर फिलहाल उन 20 सीटों पर केन्द्रित है। इन इलाकों में स्टार प्रचारकों की उपस्थिति बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है।



पीएम मोदी-शाह और योगी की डिमांड

छत्तीसगढ़ में भाजपा पीएम मोदी की 3 सभाएं करवाने जा रही है। इसके लिए तैयारियों की चल रही है। लेकिन कई प्रत्याशी उन्हें अपने क्षेत्र में भी बुलाने को आतुर हैं। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह व योगी आदित्यनाथ के साथ ही हेमंता बिस्वा सरमा की भी प्रत्याशी डिमांड कर रहे हैं, ताकि अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना सकें। यह तय है कि प्रत्येक क्षेत्र में स्टार प्रचारकों की उपस्थिति रहेगी। पार्टी, प्रत्याशियों की डिमांड के हिसाब से स्टार प्रचारकों के दौरे नहीं करवा पाएगी, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि मोदी, शाह जैसे नेताओं की सभाएं या रेलियां ऐसे स्थान पर हों, जहां से एकसाथ कई इलाकों को साधा जा सके।

सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान बाहर! अब कोई करिश्मा ही लगा सकता है नैया पार

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से अब तक चार टीमों बाहर हो गई हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी टीम को एलिमिनेशन का टैग नहीं मिला है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल काफी कुछ बयां कर रही है। बांग्लादेश, नीदरलैंड और इंग्लैंड के बाद अब पाकिस्तान की टीम के टॉप 4 में पहुंचने के चांस लगभग खत्म हो गए हैं। इनमें से कोई भी टीम अगर टॉप 4 में यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो इसे करिश्मा ही कहा जाएगा।



यया है पाक के टॉप 4 में पहुंचने का सेनेरियो?

पाकिस्तान की टीम तभी टॉप 4 में पहुंच सकती है, जब बोस पायदान की टीम 10 अंकों के साथ क्वालिफाई करे। ऐसा इस साल संभव होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप 4 में नहीं पहुंचने का कारण ये भी रहेगा कि अगर 10 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन होता है तो टीम का नेट रन रेट बेहतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान को अपने बाकी बचे तीनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और ये दुआ करनी होगी कि बाकी टीमों की हार-जीत उन्हीं के मुताबिक हो।

कसान बाबर आजम ने भी खुद मान लिया है कि टीम के टॉप 4 में पहुंचने के चांस खत्म हो गए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद पोस्ट मैच सरेमनी में कहा, हमारे पास इस मैच को जीतने और दौड़ में बने रहने का अवसर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अगले 3 मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। देखते हैं उसके बाद हम कहां खड़े होंगे। बाबर आजम की चाहत होगी कि आखिरी के तीनों मैच जीतकर टॉप 6 में फिनिश किया जाए।

पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप 2023 की चौथी हार मिली। टीम 6 में से 2 ही मैच जीत पाई है। ऐसा ही कुछ हाल बांग्लादेश, नीदरलैंड और इंग्लैंड की टीम का है। ये टोपें भी चार-चार मुकाबले हार चुकी हैं और ऐसे में अगर ये टोपें बाकी के मुकाबलों को जीत जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 अंकों तक ही पहुंच पाएंगी। इस स्थिति में टॉप 10 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अभी भी 6 टीमों के पास 12 या इससे ज्यादा अंकों के साथ लीग फेज को खत्म करने का मौका है।

पाकिस्तान की टीम के अगले तीन मुकाबले बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की टीम अगर अगला एक भी मैच हार जाएगी तो आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच में कोई भी टीम मुकाबला हारेगी, उसके भी टॉप 4 में पहुंचने के चांस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर-मगर की स्थिति भी पाकिस्तान के लिए लगभग खत्म सी हो गई है।

बीच सड़क व नो पार्किंग पर खड़े वाहन चालकों पर कार्रवाई चार ट्रक चालकों पर 80 हजार का जुर्माना



श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सड़क जंक्शन पर नो पार्किंग के साथ ही नो पार्किंग व सड़क बाधा उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने सड़क बाधा व नो पार्किंग प्रिया में खड़े चार भारी वाहन चालकों पर कार्रवाई कर उससे 80 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया है।

दुर्ग जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गगं के निर्देश पर डीएसपी ट्रेफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। सड़क बाधा उत्पन्न करने

जो दे दे उसका हो भला, जो न दे उसका...

श्रीकंचनपथ

कि उसने पार्टी को मजा चखा दिया। क्या पाता पार्टी उसे फिर से ससमान वापस ले ले। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एक ऐसे ही नेता ने पार्टी छोड़ी और विरोधी दल की गोद में जा बैठा। फोरन टिकट मिली और उसे प्रत्याशी बना दिया गया। नामांकन दाखिले के समय उसका आमना-सामना अपनी पिछली पार्टी के एक दिग्गज से हो गया। उसने तत्काल झुककर चरण स्पर्श किए। नेता भी मरता वया न करता। उसने भी उसे आशीर्वाद दे दिया। वैसे इतनी अच्छी किस्मत सभी की नहीं होती कि वह किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में चला जाए। अधिकांश लोगों को जैसीसीजे, जैसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों में जाना पड़ रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किये हैं। इन सभी दलों ने सभी 90 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पर इतने प्रत्याशी उनके पास हैं ही नहीं। इसलिए उनकी नजर बागियों पर लगी हुई है। मुश्किल ये है कि उनके पास न तो स्टार प्रचारक हैं और न ही फंड। लिहाजा बागी भी इसी बात के इंतजार में है कि कोई तो उसे नामांकन वापसी के लिए मना ले। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये छोटी पार्टियां किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की बी-टीम हैं। इनका मुख्य काम प्रतिद्वंद्वी दल के प्रत्याशी का वोट काटना होगा। कुछ सीटों पर हार-जीत तय करने में इनकी निर्णायक भूमिका हो सकती है।

गुस्ताखी माफ
- दीपक रंजन दास

हर्ष मीडिया एडवर्टाईजर्स के बढ़ते कदम....

अब राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में...

- भगत सिंह चौक, संकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर
- भगत सिंह चौक, संकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर
- जयसंत चौक, सिन्धु सदन, किण्वन हटल, रायपुर, जिला-रायपुर
- संदेश बन्धु विरिडिंग परिसर, वीआईपी चौक मोड, डाई क्रमांक-51, तेलीबांधा, रायपुर, जिला-रायपुर
- पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
- मिलन स्वीट्स, रेलवे स्टेशन चौक, रायपुर
- नेशनल हाईवे-53, पावर हाउस रेलवे स्टेशन, भिलाई, जिला-दुर्ग
- पाटन पुल, उदई (म. मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र), जिला-दुर्ग
- आकाशगंगा चौपाटी, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग
- सिरसा गेट चौक, भिलाई-3, जिला-दुर्ग
- अग्रसेन चौक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर
- बिलासपुर रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर के सामने, गेट नं.-03, बिलासपुर
- बिलासपुर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नं.-01, गेट नं.-04, बिलासपुर
- पड़व चौक, मुंगेली, जिला-मुंगेली
- दाऊका चौक, मुंगेली, जिला-मुंगेली

LED SCREEN के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए संपर्क करें

शॉप-12, प्रेस परिसर, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग
शहीद भगत सिंह चौक, संकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.प्र.)

Contact -
9303289950
9131425618
9827806026

Harsh Media Advertisers

संपादकीय

कतर से उम्मीद

भारतीय नौसेना के सात पूर्व अधिकारियों और एक नाविक को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने से राजनयिक क्षेत्र से घरेलू राजनीति तक स्वाभाविक ही सनसनी का आलम है। यह कोई साधारण मामला नहीं है, इसे पूरी संवेदना के साथ सुलझाने की ज़रूरत है। भारत से कतर को कोई शत्रुता नहीं है, रिश्ते हमेशा मित्रवत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कतर शासन के इशारे पर हुआ यह फैसला चकित कर देता है। कुछ लोग इसके पीछे इजरायल के प्रति भारत के उदार रुख को जिम्मेदार मानते हैं। यह बात छिपी नहीं है कि कतर को संवेदना फिलिस्तीन और साथ ही हमास के प्रति भी रही है। खैर, भारत सरकार को उचित ही ऐसे तमाम उपाय आजमाने चाहिए, ताकि भारतीयों के प्रति न्याय सुनिश्चित हो सके। दुनिया के सबसे

“ भारतीय राजनयिकों को विस्तृत फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। अपनी बात रखते हुए संतुलन बहुत जरूरी है। इस काम में सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को ही लगाना चाहिए। भारत दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति बहुत उदार रहा है और वैसी ही उदारता की उम्मीद दूसरों से भी रखता है। जो भारतीय कतर की सेना को मजबूत करने में लगे थे, उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाना अभी समझ से परे है।

की सजा सुनाई गई, वे सभी योग्य व सम्मानित हैं, पर जासूसी के आरोप में उनका फंसना अचरज पैदा करता है। इन भारतीयों ने समूह में रहते हुए क्या जासूसी की है और इससे कतर का क्या नुकसान हुआ है, इसको तार्किक रूप से समझना जरूरी है। ये सभी भारतीयों वहां एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन भारतीयों का पक्ष साफ तौर पर अभी भी सामने नहीं आने दिया गया है। ये सभी जिस निजी कंपनी की सेवा में थे, वह कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण व अन्य सेवाएं प्रदान करती है। इन भारतीयों को अगस्त 2022 से ही कैद में रखा गया है और गोपनीयता बरतते हुए सुनवाई हुई है। भारतीय राजनयिकों को विस्तृत फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। अपनी बात रखते हुए संतुलन बहुत जरूरी है। इस काम में सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को ही लगाना चाहिए। भारत दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति बहुत उदार रहा है और वैसी ही उदारता की उम्मीद दूसरों से भी रखता है। जो भारतीय कतर की सेना को मजबूत करने में लगे थे, उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाना अभी समझ से परे है। भारतीय राजनयिकों को बदलते समय में ज्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। दुनिया में कभी भी भारतीयों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटे-छोटे देश भी अगर भारत को चुनौती दे रहे हों, तो उनकी पीड़ा या समस्या को समझना होगा। एक ताजा शिकायत मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर से आई है, जहां पहुंचने वाले भारतीयों से 1,000 डॉलर का शुल्क वसूला जा रहा है। क्या यह सही है? नया शुल्क 23 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है। यह शुल्क भारतीयों से वसूलने की वजह को समझना और समाधान करना जरूरी है। अल सल्वाडोर में तो ज्यादा भारतीय नहीं रहते हैं, लेकिन कतर में साढ़े छह लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। कतर के विकास में भारतीयों का बहुत योगदान है और कतर से भारत आने वाला पैसा भी महत्वपूर्ण है। अतः तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत संवेदना के साथ शांतिपूर्वक इस विवाद को सुलझाना सभी के हित में है।

क्रिकेट के मैदान में सियासी गुगली मुनासिब नहीं

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, जो खेल भावना के खिलाफ हैं। कभी किसी खिलाड़ी को चिढ़ाने के लिए धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, तो कभी टीम की जीत को गाजा में बसे फलस्तीनियों को समर्पित किया जाता है, तो कभी 'प्लेयर ऑफ द मैच' जैसे पुरस्कार पाकिस्तान से निकाले गए अफगानियों के नाम कर दिया जाता है। कुछ लोग इसे नफरत की संज्ञा दे रहे हैं, तो कुछ की नजर में यह राजनीति है। इन शब्दावलिियों में न भी उलझें, तब भी इससे शायद ही किसी को आपत्ति होगी कि ऐसी बातें क्रिकेट की गरिमा को चोट पहुंचाती हैं और नकारात्मक माहौल बनाती हैं। मैदान में कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने देश के लिए खेलता है। यह कोई जंग या चुनाव का मैदान नहीं कि किसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। यह तो बस खेल का मैदान होता है, जिसमें जीतने के लिए खिलाड़ी आक्रामक खेल का सहारा जरूर लेते हैं। यह हर कहलाता 'जेंटलमैन गेम' ही है। फिर किसी टीम के लिए हर दिन एक समान नहीं होता। वह कभी हारती भी है, तो कभी जीतती है। इसमें छोटी से छोटी टीम भी धुरंधर खिलाड़ियों से सजी मजबूत टीम को पटखनी देने में सफल होती है। ऐसे में, यह देखकर अचरज ही होता है कि खेल की गरिमा को दरकिनार कर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फिजूल की हरकतें होने लगी हैं। अगर अभिव्यक्ति का प्रदर्शन इतना ही जरूरी है, तो खिलाड़ी ऐसे कृत्य अपने देश में कर सकते हैं, हालांकि तब भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अच्छे क्रिकेटर समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं, इसलिए वे देश-दुनिया को लेकर क्या सोचते हैं, उसे वे मैदान से इतर प्रदर्शित करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जब किसी टीम ने अपनी जीत ग्रांडस्टैंडफ मैच को समर्पित की, तब उसका विरोध नहीं किया गया था? मेरा मानना है कि इंसानियत का हमें ख्याल रखना चाहिए। ग्रांडस्टैंडफ मैच को अपनी जीत भेंट करना व्यक्तिगत मसला होता है, लेकिन किसी राजनीतिक आंदोलन को तरफदारी करना सियासी मसला। इन दोनों का फर्क हमें समझना होगा। मैं पुराने स्कूल का क्रिकेटर हूँ, मैंने भी विश्व कप खेला है। हमें जो क्रिकेट के संस्कार मिले हैं, वे इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देते। अभिव्यक्ति को ऐसी कथित आजादी हमने अपने जमाने में नहीं देखी है, जबकि उस दौर में भी कई तरह के राजनीतिक मसलों से विश्व जूझ रहा था। तब भी देशों के बीच हितों के टकराव थे। स्पष्ट है, खेल के मैदान में राजनीति नहीं हो, इसको आईसीसी को सुनिश्चित करना चाहिए। निस्संदेह, क्रिकेटर भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं घटनाओं से प्रभावित होती हैं, उनकी भी अपनी वैचारिकी है, मगर किसी खिलाड़ी को ऐसे कृत्यों पर प्रदर्शन करना ही है, तो उसके लिए मैदान के अलावा दूसरे मंच हैं, जहां वे ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी भावना का प्रदर्शन खेल से करें। वह कहीं ज्यादा लोगों को अपील कर सकती है। इसके लिए क्रिकेट खिलाड़ी को मैदान में न तो सजदा करने की ज़रूरत है, न ही जुबानी जमा-खर्च। फिजुल के जुबानी तौर कितने घातक हो सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका अशरफ को इसका बखुबी एहसास होगा। उन्होंने विश्व कप की शुरुआत में भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं, पर उनके लिए स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनका खुद अपने देश में ही जमकर विरोध हुआ।

विचार

“ वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर भारत के एतराजों के पीछे कई कारण हैं। कुपोषण का डाटा, जो कि सूचकांक का मुख्य अवयव है, वह गैलप वर्ल्ड पोल की खोज पर आधारित है, जिसका सर्वेक्षण केवल 3000 लोगों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में भारत में उम्र-बनाम-लंबाई और लंबाई-बनाम-भार में असमानता दर बहुत अधिक बताई गई है। यह डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे (2019-21) से लिया गया है।

खाद्यान्न संकट के बीच कुपोषण की चुनौती

सुबीर रॉय

नवीनतम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है, यह जगह 125 मुल्कों में न केवल सबसे निचले पायदानों की है बल्कि हम पड़ोस के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से भी पिछड़े हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक भारत सरकार को ओर से खंडन आना ही था। भारत ने इस सूचकांक को नकारते हुए कहा है भुखमरी पैमाना के इस ढंग में प्रणालीगत खामियां हैं। यहां तक कि एक कदम आगे जाकर इसको वह हरकत ठहराया है, जिसमें 'बदनाम करने का इरादा' झलकता है।

यह सूचकांक वेल्ड हंगर हाइफे (डब्ल्यूएचएच) और कमंस वर्ल्डवाइड नामक दो नामचीन संस्थानों द्वारा बनाया जाता है। यह भांते हुए पिछले सूचकांकों की भांति भारत इस बार भी आकलन पर एतराज करेगा, दोनों संस्थाओं ने भारत सरकार से बात करने के बाद और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा उप्तलब्ध डाटा को शामिल करते हुए यह सूचकांक जारी किया है।

असल में, यह सूचकांक समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए सुरी खबर बता रहा है। वैश्विक भुखमरी का आंकड़ा बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और इसको नीचे लाने पर प्रगति पिछले सालों में ठहरी-सी है। वर्ष 2008 और 2015 के आंकड़ों में उभार (जो कि वास्तव में स्थिति और विगड़ने का द्योतक है) अपने से पिछले साल के मुकाबले चार बिंदु अधिक रहा, वहीं 2023 का नवीनतम आंकड़ा 2015 से एक बिंदु कम है। साथ ही, कुपोषण की

रेखा भी असल में ऊपर उठी है।

वैश्विक और राष्ट्रीय सूचकांक की गणना करने में चार संकेतक इस्तेमाल किए जाते हैं-कुपोषण (नाकाफी कैलोरी ग्राह्यता), लंबाई में आशातीत वृद्धि न होना (उम्र के अनुसार कम लंबाई), कम भार (लंबाई के मुताबिक कम भार) और शिशु-मृत्यु दर (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत)। वर्तमान लेखा-जोखा बताता है कि वर्ष 2030 तक विकास ध्येय पाने की पूर्ति में उपरोक्त चारों संकेतक आशान्वित नहीं करते। 2030 तक शून्य भुखमरी ध्येय पाने की दिशा में, 58 राष्ट्र यानी कि नवीनतम सूची में शामिल लगभग आधे देश, शून्य का आंकड़ा पाना तो दूर की बात है, न्यूनतम-भुखमरी स्तर की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे।

वर्ष 2015 से 2023 के बीच बनी इस अधोगति का अध्ययन दो कारण बताता है। पहले कोविड-19 महामारी का आना और उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध, जिससे खाद्य कीमतों में बहुत ऊंचा उछाल आया। कुछ गरीब मुल्कों में तो लोग एक वक के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छोटे स्तर में ही सही, गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तंगी और उच्च मूल्य बनाने में भूमिका निभाई है। क्योंकि सबसे बड़े चावल निर्यातकों में भारत एक है।

चिंताजनक यह है कि वैश्विक खाद्य स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही। अतिरथी मौसमीय मार (जो कि पर्यावरणीय बदलावों का नतीजा है) लगातार बढ़ने लगी है और जिससे बनी



बाढ़ या सूखे खाद्यान्न उत्पादन पर असर डालते हैं। इसके साथ ही, यदि इस्त्राएल-हमास लड़ाई में आसपास के मुल्क भी कूद पड़े तो इससे खाद्यान्न आपूर्ति में आगे अनिश्चितता बनेगी और कीमतें और ऊपर उठेंगी। सूचकांक में प्रयुक्त हुए चार संकेतकों में तीन में भारत और पड़ोसी देश सबसे खराब श्रेणी में नहीं आते अर्थात् उम्र-बनाम-लंबाई, कुपोषण और शिशु-मृत्यु दर में। लेकिन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश लंबाई-बनाम-भार श्रेणी में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग में है। इन तीनों में, भारत का आंकड़ा सबसे अधिक 18.7 फीसदी होने के कारण स्थिति सबसे खराब है, तो श्रीलंका (13.1 प्रतिशत) और बांग्लादेश 11 फीसदी स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। यह दुश्चावली उस बृहद हकीकत से भी बंधी है, जिसमें बांग्लादेश कहीं ज्यादा गरीब होने के बावजूद मानव विकास संकेतकों में भारत से ऊपर स्थान पर है।

सूचकांक रिपोर्ट में नीतियों में सुधार के वास्ते कई सिफारिशें सुझायी गई हैं। कहा गया है कि खाद्य व्यवस्था में बदलाव

करने में 'भोजन का अधिकार' को प्रक्रिया का आधार बनाया जाए। इस खाद्य व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया में युवाओं की क्षमताओं पर निवेश किया जाए। सततापूर्ण, न्यायसंगत और लचीली खाद्य व्यवस्था में निवेश करके सुनिश्चित किया जाए कि वे युवा जनसंख्या को व्यवहार्य और आकर्षक कमाई करने का मौका मिल पाए। भारत सरकार के लिए इसका मतलब है, 'भोजन का अधिकार' बनाना, जो

भले ही संविधान में लिखित रूप में न हो परंतु 'शिक्षा का अधिकार' की भांति सबकी एक वास्तविक ज़रूरत है। जिस तरह 'शिक्षा का अधिकार' कार्यक्रम पर क्रियान्वयन हुआ है, लगता है चाहे 'अधिकार' शब्द से यह ज़रूरत कानून रूप से पाने की राह खुलती हो, पर जब तक इस पर अमल अर्थपूर्ण न हो पाएगा तब तक यह न्यायसंगत नहीं बन पाएगी। इसके अतिरिक्त, कोई वजह नहीं कि अपने ज्यादा अनुभवों के साथ बड़े-बुजुर्ग खाद्य व्यवस्था में रूपांतरण के लिए बढ़िया योगदान न कर पाएं।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर भारत के एतराजों के पीछे कई कारण हैं। कुपोषण का डाटा, जो कि सूचकांक का मुख्य अवयव है, वह गैलप वर्ल्ड पोल की खोज पर आधारित है, जिसका सर्वेक्षण केवल 3000 लोगों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में भारत में उम्र-बनाम-लंबाई और लंबाई-बनाम-भार में असमानता दर बहुत अधिक बताई गई है। यह डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे (2019-21) से लिया गया है। भारत सरकार का एतराज यह भी है कि

सूचकांक बनाते वक वास्तविक समय आधारित 'पोषण ट्रैकर' डाटा को गिना जाना चाहिए था। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के बहु-केंद्रीय विकास संदर्भ अध्ययन का डाटा इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठती है, जिसने उम्र-बनाम-लंबाई और लंबाई-बनाम-भार का जमीनी सर्वे भारत में 1997-2003 में किया था, जो कि अब पुराना पड़ चुका है। एक एतराज यह भी है कि अध्ययन में दक्षिण भारत के अमीर बच्चों का ही डाटा लिया गया है जो कि पूरे देश के बच्चों की स्थिति का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते।

वेशक वैश्विक सूचकांक को खारिज करना आसान है लेकिन भारत के लिए आगे की राह है क्या? वर्तमान में काफी सब्सिडी देकर सस्ती दर पर खाद्य उपलब्धता नीति, सबको स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित ध्येय, और खुले में शौच रोककर स्वच्छता बनाने के कार्यक्रम जारी हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में इनकी भी भूमिका है। साथ ही, ग्रामीण जनसंख्या को भुखमरी से बचाने के मकसद से चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार देकर, इसमें सकल ग्रामीण गरीबों को भी शामिल करना चाहिए।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, अनेक राज्य सरकारों 'मुफ्त की रेवडियां' देने का वादा कर रही हैं, जिसको वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेवाराणा ठहराकर समीक्षक आलोचना किया करते हैं, लेकिन गरीबी और भुखमरी को दूर रखने में इनकी भी भूमिका है।

हमने गिनाए मामले, तो विपक्ष सुन न पाया

किरेन रिज्जीजु, तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री

हम लोगों ने आपको बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए सरकार के पक्ष को भी आप ध्यान से सुनिएगा।...हम लोग संविधान को समर्पित भाव से मानते हैं और संविधान से ही चलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने शपथ ली है। चाहे प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, संसद के सदस्य हों, सभी ने शपथ ली है।...

मुझे इस बात की शुरू से आशंका थी कि ये लोग राजनीतिक मुद्दे से ही इस चर्चा को लेकर आए हैं।...इन्होंने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और पूरे देश में एक हवा खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसी कोशिशों को जनता समय-समय पर जवाब देती आई है। हम जब विपक्ष में थे, तब इन्होंने यहां सत्ता में बैठकर पूरे देश को एक अलग ही दृश्य दिखाया था।...उसमें इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर देश के साथ ऐसा मजाक किया... मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आंकड़े देना चाहता हूँ। जब सन 2014 में

हम सत्ता में नहीं आए थे, ...महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आई थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं आई थी, उस समय की कुछ घटनाओं में आपको बताना चाहता हूँ।...तब आपको मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई पड़ी थी।।...अब वे बहाने बना रहे हैं। इनमें सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए जब सदन में सच्चाई बताई जा रही है, वे हंगामा करके वॉक आउट का ड्रामा कर रहे हैं।...हम पहले की घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, तो ये लोग जनता के सामने अपना चेहरा दिखाकर के लायक नहीं रहेंगे।...

मॉब लिंचिंग, पशु तस्करी और बीफ के नाम पर इस देश में जितनी घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में मैंने बताया है, मैं और भी तथ्य यहां रख सकता हूँ। क्या उस समय के प्रधानमंत्री या आपके नेतृत्व ने उनकी इन चीजों की भर्त्सना की है? हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी भर्त्सना की है और राज्य सरकारों से कहा है कि कदम उठाने चाहिए।...हमारे सत्ता में आने से पहले के



मिलकर काम करने के लिए अच्छे सुझाव देने के बजाय खामखाह बार-बार प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर व केंद्र सरकार को निशाना बनाकर आप क्या पाना चाहते हैं? ...खड़गो जी ने पूछा कि हम लोगों ने कार्रवाई क्या की? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी निगरानी में बहुत तेज कार्रवाई होती है।...आप लोगों ने मोहम्मद पहलू खान की घटना का जो जिक्र किया।...हमने तुरंत बिना देरी एफआईआर दर्ज कराई

और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। उसके बाद हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद में जो घटना हुई, उसमें चार मुसलमान भाइयों को मारने की जो घटना सामने आई, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई और उसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।...जब आपके राज्य में घटना होती है, तो आप चाहते हैं कि इसकी चर्चा न हो, जो एक बीमारी 'सिलेक्टिव एमनीशिया' आजकल हो गई है, उसके मुताबिक, आप चुन-चुन कर कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश क्यों करते

और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। उसके बाद हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद में जो घटना हुई, उसमें चार मुसलमान भाइयों को मारने की जो घटना सामने आई, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई और उसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।...जब आपके राज्य में घटना होती है, तो आप चाहते हैं कि इसकी चर्चा न हो, जो एक बीमारी 'सिलेक्टिव एमनीशिया' आजकल हो गई है, उसके मुताबिक, आप चुन-चुन कर कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश क्यों करते

और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। उसके बाद हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद में जो घटना हुई, उसमें चार मुसलमान भाइयों को मारने की जो घटना सामने आई, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई और उसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।...जब आपके राज्य में घटना होती है, तो आप चाहते हैं कि इसकी चर्चा न हो, जो एक बीमारी 'सिलेक्टिव एमनीशिया' आजकल हो गई है, उसके मुताबिक, आप चुन-चुन कर कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश क्यों करते

हैं? इससे पहले आपने इस देश में एक माहौल खड़ा किया, उसका नाम था असहिष्णुता, इसके नाम से चर्चा शुरू की गई, पर जनता द्वारा जवाब देने के बाद कई बंद हो गई।...फिर आपने अर्वाइ वापसी की चर्चा की। जब अर्वाइ वापस करने वालों की पोल खुल गई, तो आपने दूसरा विषय खोजना शुरू कर दिया। फिर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश को गाली देने का काम किया।...फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप भारत माता की गाली दो।...इस देश में जो भी समस्या है, सामूहिक रूप से समाधान होना चाहिए और विकास ही एकमात्र समाधान है। बार-बार इस देश में जो अलग-अलग तरीके से मुद्दा बनाकर सदन का समय खराब करने और देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, वह बंद होनी चाहिए।...हम पर आप एक उंगली दिखाएंगे, तो चार उंगलियां आपकी तरफ पड़ती हैं। आप यह न भूलिए। (लोकसभा में दिए गए भाषण से)

पहले देश में नहीं होती थी ऐसी मीडिया हिंसा

मलिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सांसद

आज पूरे देश में भय और आतंक का माहौल है। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की छवि खराब हो रही है और खासकर कई शहरों में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं का मिलसिला थम नहीं रहा है। कानून की व्यवस्था हर जगह बिगड़ती जा रही है। यह इसीलिए बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ... धर्म के नाम पर, गोहत्या के नाम पर, हर जगह हत्या हो रही है। लोग बहुत चिंतित हैं कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? कानून की व्यवस्था है या नहीं? क्या इस देश में सरकार है या नहीं, यह समस्या आज लोगों के सामने है। खासकर मैं आपसे कहूंगा कि गोहत्या के लिए जो कानून है, संविधान के दिशा-निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद है, उसके लिए सभी को गौरव है, क्योंकि उन अनुच्छेद के मुताबिक ही सभी राज्यों में कानून बनते हैं और कुछ राज्यों में ये कानून बन चुके हैं, पर चंद राज्यों में ऐसे कानून नहीं हैं। फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा होना

चाहिए।...जो घटनाएं घट रही हैं, चंद संगठन इसे बढ़ावा दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से चाहे यह विश्व हिन्दू परिषद हो या बजरंग दल हो या गौरक्षक हों, ये सारी संस्थाएं भाजपा से जुड़ी हुई हैं।...खासकर भाजपा विधायक और सांसद भी समर्थन कर रहे हैं।...

...इन घटनाओं से देशप्रेमी और मानवतावादी जनता को बड़ा धक्का लगा है।...जब से देश में राजा सरकार के कदम पड़े हैं, तब से ऐसी सांप्रदायिक और अपराधिक घटनाएं हो रही हैं।...प्रधानमंत्री कहते हैं, यह गौतम बुद्ध, महावीर, गुरुनानक, गांधीजी और सूफी संतों का देश है। यहां शांति और समृद्धि से रहना है, वह हमेशा संदेश देते हैं। हमारा देश सदा से भाईचारे के लिए मशहूर रहा है, भाईचारे के लिए आज तक राष्ट्रपिता गांधीजी का संदेश लेकर दुनिया में हम जाते रहते हैं, हमारा आदर भी होता है और जब गांधीजी का नाम लेते हैं, तो सभी उनसे सीखने की



बात कहते हैं। आज हम गौतम बुद्ध को भूल गए, महावीर को भूल गए, गुरुनानक को भूल गए...। इन सबको भूलकर कानून हाथ में लेकर अल्पसंख्यक, दलित और महिलाओं की हत्या कर रहे हैं।...

जाति और धर्म के नाम पर हमें यह नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में यह हो रहा है, हिंदू हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। जम्मू-कश्मीर में ऐसी घटनाएं हुईं, ये घटनाएं क्यों हो

रही हैं? इसके पीछे क्या बात है? ...एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो भी ऐसा काम करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, गोरक्षक कोई भी ऐसा करेगा, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आपने कहा, ये गुंडे लोग हैं, हम गुंडे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, वे हमारे से जुड़े नहीं हैं, पर क्या आपने एक्शन लिया?...

एक घटना नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी सूची है। मैं आपकी इजाजत से चंद घटनाएं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं पूरी 50 घटनाएं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ वर्ष 2017 की घटनाएं ही पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।... राजस्थान में पहलू खान अपनी रोजी-रोटी डेयरी फार्मिंग से कमाता था। उसके पास संबंधित कामजात रहते हुए भी उन्हें मार दिया।...ऐसी घटनाएं गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे आदि हर जगह, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ हो रही हैं। इसे नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।...ऐसी घटनाएं अंग्रेजों के

समय में हुआ करती थीं, लेकिन आज संसदीय लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह बहुत शर्म की बात है।... हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अपने हाथ में कानून लेता है, तो उसे ज़रूर सबक सिखाना चाहिए।...इनकी नीति ऐसी है कि चोर से कहे चोरी कर और सड़कार से कहे रखवाली कर, ये इस नीति से जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है और यह सब लोगों को परेशान कर रही है। सबके हक छीन रही है। प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, यह ज़रूरी है - दुनिया भर के इंसानों का यही है कहना / सबका हक है अमन और चैन से जिन्दा रहना। / पास न आने दो नफरत के तुफानों को / प्यार की आज ज़रूरत है सब इंसानों को। ... यह मेरा संदेश है। यह देश हिन्दुस्तान है। इस देश को हिन्दुस्तान रहने दो। (लोकसभा में दिए गए भाषण से)

स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-

9827806026, 7869620239

Sargam Musicals

Deals in All Kinds of Musical Instrument Sales & Repair

DURG:- Near Tarun Adlabs Station Road, Durg (C.G.) Durg, Ph. 2330588, 9826660688

RAIPUR:- Near Manju Mamta Reaustaurant, M.G. Road Raipur. Ph. 0413288, 9303876196

गंजपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर रिव्लेसमेंट, 100% स्तुष्टि की गारंटी

पहले बाद में JITU'Z CUT N SHINE 93009-11331

इंग्ली वेलनेस के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (CG.)

ADMISSION OPEN
COMMERCE GURU
12th CLASS
REGULAR STUDENT
GET CLASS 11th SYLLABUS CLASSES for FREE
APPLY NOW
www.commerceguru.in
commerceguru2011@gmail.com
95, Gaurav Path, Sundar Nagar, Bhiwari
+91 9644454810
+91 8103338634

श्रीकंचनपथ

छत्तीसगढ़

इनकम TAX ITR फाइल
बनवायें मात्र 500/- में
TDS, GST, TAX Expert
सम्पर्क- शेखर गुप्ता
9300755544
onlytds@gmail.com WWW.ONLYTDS.COM

शनिवार, 28 अक्टूबर 2023

पेज-3

खास खबर

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अंतर्गत विभिन्न भर्ती परीक्षा के लिए उड़नदस्ता नियुक्त

कोरबा। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को क्रमशः प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12:15 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 02 बजे से 04:15 बजे तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारु संचालन एवं केन्द्रों में व्यवस्था बनाए रखने व अनुचित साधनों के रोकथाम तथा निरीक्षण हेतु उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी श्री पी.एल.मिर्देश, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाल्को रोड में प्रथम एवं व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुदूरमाल श्रीमती रुचि श्रीवास्तव को प्रथम पाली हेतु परीक्षा केंद्र 2201 से 2210 तक 10 परीक्षा केंद्रों में तथा द्वितीय पाली में परीक्षा केंद्र 2201 से 2204 तक 04 परीक्षा केंद्रों हेतु उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार साँखिकी अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा एम.आर. डहरिया, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवापारा प्रकाश राठौर तथा व्याख्याता सेजेस गोपालपुर श्रीमती ललिता पटेल को परीक्षा केंद्र 2211 से 2220 तक 10 परीक्षा केंद्रों में प्रथम पाली हेतु उड़नदस्ता दल नियुक्त किया गया है।

विभिन्न स्थानों में जनों की टीमों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नेहरू भूरे के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के सभी 10 जनों की टीमों द्वारा जोन कमिश्नरों एवं कार्यपालन अभियंताओं सहित सहायक अभियंताओं, उपअभियंताओं, सहायक राजस्व अधिकारियों, सफाई मित्र कर्मचारियों, महिला स्वयंसेविका समूहों की महिलाओं की उपस्थिति में नगर पालिक निगम क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में पहुंचकर मतदाताओं को शत - प्रतिशत मतदान करने जागरूक बनाने का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से निरंतर जारी है। इस क्रम में नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 1 की टीम ने जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 18 के तहत एकता नगर सहित अन्य विभिन्न स्थानों में पहुंचकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शत - प्रतिशत मतदान करने की दृष्टि से वहाँ के रहवासी मतदाताओं को नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 1 के जोन कमिश्नर जसदेव सिंह बाबरा एवं कार्यपालन अभियंता गजराज कँवर की उपस्थिति में जागरूक बनाया। महिला स्वयंसेविका समूह की महिलाओं ने नागरिकों को शत - प्रतिशत मतदान करने की दृष्टि से जागरूक बनाया। इस दौरान क्षेत्र रहवासी मतदाताओं सहित जोन क्रमांक 1 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शत - प्रतिशत मतदान करने की दृष्टि से सामूहिक शपथ ली। नगर निगम जोन नम्बर 2 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे एवं कार्यपालन अभियंता पी. डी. धृत्तलहरे की उपस्थिति में जोन के तहत डब्ल्यू. आर. एस. कॉलोनी क्षेत्र के मतदाता केन्द्र क्रमांक 3 के क्षेत्र के रहवासी मतदाताओं के मध्य मतदाता जागरूकता अभियान शत - प्रतिशत मतदान हेतु जागरूकता लाने चलाया। मैदान शंकर नगर में नगर निगम जोन क्रमांक 3 के जोन कमिश्नर लोकेश चन्द्रवंशी की उपस्थिति में शत- प्रतिशत मतदान की सामूहिक शपथ स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए ली।

प्रदेश के निर्वाचन में रायपुर रचने जा रहा है इतिहास

उत्तर और पश्चिम विधानसभा में निर्वाचन कार्य होगा महिला अधिकारियों के जिम्मे

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। 'मास्टर ट्रेनर' ने पूछा मतदान क्रमांक-02 का क्या कार्य है। महिला प्रशिक्षणार्थियों बताया कि अमित स्थायी लगाना, पर्ची देना, रजिस्टर में हस्ताक्षर कराना। उनके सटीक एवं सही जवाब से मास्टर ट्रेनर संतुष्ट हुए और सराहना भी की। यह दृश्य एनआईटी में मतदान दलों का प्रशिक्षण के दौरान का था। यहाँ ट्रेनिंग ले रही महिलाएँ उत्साह से लबरेज थी, क्योंकि जिले का यह विधानसभा चुनाव प्रदेश के निर्वाचन में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ के दो विधानसभा महिलाओं के जिम्मे होगा। यहाँ टॉप से लेकर यूनिट तक निर्वाचन का कार्य महिलाओं को सौंपा जाएगा। यह विधानसभा में उत्तर और पश्चिम है। वास्तव में यह महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य है। राज्य निर्वाचन आयोग महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बूथ संगवारी



केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिले के उत्तर और पश्चिम विधानसभा में सभी बूथों को संगवारी मतदान केन्द्र बनाया जा रहा है। उत्तर विधानसभा में 18 सेक्टर हैं। इसमें 01 सेक्टर में महिला अधिकारी होंगी। वहीं 265 कुल मतदान केन्द्र 1 हजार 60 महिला अधिकारियों के हवाले होगा। 265 बूथ में पीठासीन अधिकारी, मतदान क्रमांक 01,02,03 में सभी जगहों पर महिला अधिकारी-कर्मचारी को तैयारी की जा रही है। 15 सेक्टर और 201 मतदान केन्द्र हैं। यहाँ भी 01 सेक्टर महिला अधिकारी होंगी। साथ ही बूथों में 804 महिला अधिकारी होंगी, जिनमें 201 पीठासीन अधिकारी और 603 मतदान अधिकारी होंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि जिले के इस बार 02 विधानसभा उत्तर और पश्चिम में निर्वाचन कार्य में पूर्ण रूप से महिलाओं की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी-कर्मचारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का

इस विधानसभा के मुख्य ऑब्जर्वर 01 महिला आई.ए.एस अधिकारी श्रीमती विमला आर. हैं साथ ही उनकी लाईजिंग ऑफिसर भी महिला हैं। साथ ही अधिक से अधिक महिला पुलिस बल भी तैनात किए जा रहे हैं। यहाँ पर मतदान पर्ची चेक करने से लेकर उंगली में स्याही लगाने और रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ वोटिंग करवाने तक महिलाएँ ही नजर आएंगी। पश्चिम विधानसभा को भी पूर्ण रूप से महिला अधिकारियों के जिम्मे सौंपने की तैयारी की जा रही है। 15 सेक्टर और 201 मतदान केन्द्र हैं। यहाँ भी 01 सेक्टर महिला अधिकारी होंगी। साथ ही बूथों में 804 महिला अधिकारी होंगी, जिनमें 201 पीठासीन अधिकारी और 603 मतदान अधिकारी होंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि जिले के इस बार 02 विधानसभा उत्तर और पश्चिम में निर्वाचन कार्य में पूर्ण रूप से महिलाओं की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी-कर्मचारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का

गंभीरता से निर्वहन करती हैं यह सराहनीय है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनकी ड्यूटी मतदान केन्द्र सहित जहाँ भी लगाई जाएगी वहाँ पर उनके लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। गौरतलब है कि 26 और 27 अक्टूबर को मतदान दलों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें निर्वाचन कार्य में संलग्न महिला कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। यहाँ प्रशिक्षणरत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, चंगौराभाटा की शिक्षिका अनिता वर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पंडित विशंकर यूनियर्सिटी परिसर की शिक्षिका छाया तिवारी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर की शिक्षिका सुमन पंजाबी का कहना है कि यह महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हमें ऐसी महती जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हमारे पूरी टीम में अभूतपूर्व उत्साह और प्रसन्नता है। हम इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे ढंग और कुशलता पूर्वक परिणाम तक पहुंचाएंगे।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन, पहले दो दिन में जांची गई दो हजार उत्तरपुस्तिकाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में पूरक परीक्षा 2023 से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन के प्रथम दो दिनों में लगभग 20 मूल्यांकनकर्ताओं ने लगभग दो हजार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया है।



यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छत्र कल्याण, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि 26 अक्टूबर से आरंभ केन्द्रीय मूल्यांकन के आरंभिक चरण में विषयवार महाविद्यालयों के 20

मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाया गया है। ये मूल्यांकनकर्ता हिन्दी, अंग्रेजी, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, वाणिज्य, कम्प्यूटर एप्लीकेशन आदि विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य

पूर्णता की ओर है। अब तक जिन विषयों की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उनमें से अधिकतर उत्तरपुस्तिकाएं विभिन्न 46 परीक्षा केंद्रों से विश्वविद्यालय पहुंचना आरंभ हो गई हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि पूरक परीक्षा 2023 में एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के दो प्रश्न पत्रों की लगभग 40 हजार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है जबकि दो विषयों में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की लगभग 75 हजार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है क्योंकि रसायन एवं गणित विषय में

परीक्षार्थी को तीन प्रश्नपत्र हल करना आवश्यक है। डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार पूरक परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्र 05 नवंबर तक लगातार जारी रहेंगे तथा इसके पश्चात् चुनाव एवं दीपावली अवकाश के कारण अगामी 15 दिनों अर्थात् 19 नवंबर तक पूरक परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले सातों जिलों में विश्वविद्यालय का वाहन भेजकर प्रतिदिन उत्तरपुस्तिकाएं मंगायी जा रही है। जिनका विषेष्ट प्राध्यापकों से शीघ्र मूल्यांकन कराया जायेगा।

धान एवं मक्का उपार्जन अवधि तक के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुन्द्र। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन अवधि तक के लिए कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा विपणन संघ कार्यालय, महासमुन्द्र में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दो पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें प्रथम पाली में प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक गोकुल कुमार सिन्हा एवं साहिद कुरेशी (99268-48041) तथा द्वितीय पाली में दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक

मिथुन कुमार जगत (62610-73966) एवं मनोज कुमार गोस्वामी (97549-63601) की ड्यूटी लगाई गई है। जिला विपणन अधिकारी राज्य सहकारी विपणन संघ महासमुन्द्र इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे। कलेक्टर मलिक ने नियंत्रण कक्ष में धान उपार्जन से संबंधित जिले की समस्त अद्यतन जानकारी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कक्ष में पदस्थ कर्मचारी धान उपार्जन से संबंधित लिखित समस्याओं की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग, अधिकारी को प्रेषित कर न्याकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की शासकीय निकाय की बैठक हुई संपन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

रामगढ़। उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के शासकीय निकाय एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक आत्मा प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा उपायुक्त सहित बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष, परिभ्रमण, कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान मेला सहित अन्य योजनाओं के प्रस्ताव की विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने परियोजना निदेशक आत्मा को मोबाइल

एपीकल्चर स्कूल एंड सर्विसेज के द्वारा 28 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल के आधार पर किसानों के चयन संबंधित सूची एवं प्रशिक्षण का विषय आदि तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में 31 अक्टूबर 2023 को होने वाले जिला स्तरीय परिभ्रमण में प्रत्येक प्रखंड से 15 किसानों का चयन करते हुए उपस्थित अन्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष, परिभ्रमण, कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान मेला सहित अन्य योजनाओं के प्रस्ताव की विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने परियोजना निदेशक आत्मा को मोबाइल

माता कर्मा महाविद्यालय गुण्डरदेही में पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार बालोद जिले में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निरंतर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत आज माता कर्मा महाविद्यालय गुण्डरदेही में पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता पर



आधारित रंग-बिरंगे पोस्टर बनाकर आम लोगों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इसी तरह जिले के डीएनडी परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत

रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत बालोद जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा सभी को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करने का कहा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई।

जिले में 49 नामांकन पत्र दाखिल, 36 नामांकन आवेदन लिए गए

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत आज सातों विधानसभा में 49 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। धरसीवा विधानसभा क्रमांक-47 में 08, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 में 05, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 में 07, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 में 06, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 में 14, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 में 05, अमनपुर विधानसभा क्रमांक-53 में 04 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार अब तक कुल 94 नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। साथ ही 60 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। आज शुक्रवार को कुल 36 नाम निर्देशन पत्र लिए गए। इनमें धरसीवा विधानसभा क्रमांक-47



के लिए 06, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 के लिए 06, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 के लिए 08, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 के लिए 03, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 के लिए 05, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 के लिए 05 और अमनपुर विधानसभा क्रमांक-53 के 03 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं।

आज कुल नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के नाम इस प्रकार हैं- धरसीवा विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के छाया वर्मा, शक्ति सेना (भारत देश) के नारद प्रसाद

निषाद, निर्दलीय राधेश्वरी गायकवाड़, भारतीय जनता पार्टी के अनुज शर्मा, निर्दलीय अभिषेक नायक, रायपुर के ग्रामीण विधानसभा में निर्दलीय मो. आशिफ खान, बहुजन समाज पार्टी के भूपेन्द्र घृतलहरे, निर्दलीय विवेक दास गुरु देसाई, समाजवादी पार्टी के बृजेश चौरसिया, निर्दलीय सुधांशु भूषण, रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा के गण सुरक्षा पार्टी के सुजीत कुमार मंडल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विकास उपाध्याय, निर्दलीय रोशन लाल जांगड़े, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रामसजीवन गुप्ता, निर्दलीय रोशनकुमार देशलहरे, बहुजन समाज पार्टी के बुद्धभोष बोधी, रायपुर नगर उत्तर के बहुजन समाज पार्टी के सूरज तांडी, आम आदमी पार्टी के विजय गुरुबक्षामी, राईट टू रिस्कॉल पार्टी के अशोक कुमार डडसेना, भारतीय जनता पार्टी के

पुंरदर मिश्रा, रायपुर दक्षिण विधानसभा के निर्दलीय जगत नायक, निर्दलीय युसुफ अली, निर्दलीय गजाला यास्मिन, भारतीय विधानसभा में निर्दलीय मो. आशिफ खान, बहुजन समाज पार्टी के भूपेन्द्र घृतलहरे, निर्दलीय विवेक दास गुरु देसाई, समाजवादी पार्टी के बृजेश चौरसिया, निर्दलीय सुधांशु भूषण, रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा के गण सुरक्षा पार्टी के सुजीत कुमार मंडल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विकास उपाध्याय, निर्दलीय रोशन लाल जांगड़े, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रामसजीवन गुप्ता, निर्दलीय रोशनकुमार देशलहरे, बहुजन समाज पार्टी के बुद्धभोष बोधी, रायपुर नगर उत्तर के बहुजन समाज पार्टी के सूरज तांडी, आम आदमी पार्टी के विजय गुरुबक्षामी, राईट टू रिस्कॉल पार्टी के अशोक कुमार डडसेना, भारतीय जनता पार्टी के

कूं साई राम माँ पुस्तक भंडार



होलसेल में काफी-किताब एवं स्टेशनरी सामान मिलने का एक मात्र स्थान

पुरानी एवं नई पुस्तकें खरीदी व बेची जाती है

रावणभाटा, सुपेला, भिलाई (छ.ग.)
मो. 7489051024, 7770845578

Since 1972
CROWN - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Premier sales
8959493000

A Leela Electronics
9425507772

Reena Electronics
9329132299

Shree Electronics
7000827361

Maa Durga Electronics
9827183839

Rohit Electronics
94242-02866

Authorised Distributors For Chhattisgarh

Trade Enquiry: 98262-52372

छत्तीसगढ़ में बढ़ी मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की खरीदी 6 माह में 17 लाख से ज्यादा यात्रियों ने घर बैठे की बुकिंग

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दे रह यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से अनारक्षित रेल यात्रा टिकटों की बुकिंग सुविधा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा के बाद मोबाइल से ऐप द्वारा जनरल टिकट खरीदने की सुविधा यात्रियों को दी गई है। इस सुविधा से यात्रियों को स्टेशन पर आकर टिकट काउंटर से लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदने की जरूरत अब नहीं है। इस यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को यात्रियों का अच्छा रिसॉन्स मिल रहा है एवं दिनों-दिन इस सुविधा के उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 6 माह में 17 लाख से ज्यादा यात्रियों ने घर बैठे इस सुविधा का इस्तेमाल कर टिकट खरीदा है।

बता दें यात्रियों को टिकट काउंटर में लगने वाली लाइनों से निजात दिलाने, शीघ्र टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर बैठे



यात्रा टिकट बुकिंग के साथ साथ सीजन टिकट (एमएसटी) जारी व नवीनीकरण करने हेतु यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। यात्री अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे आसानी के साथ त्वरित अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन

टिकट (एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट भी प्राप्त किये जा सकते हैं। स्टेशन से दूर रहने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके दायरे को बढ़ाकर 25 किमी भी कर दिया गया है, अर्थात यात्रीगण

स्टेशन से 25 किमी की दूरी से भी इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन टिकट (एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कर सकते हैं।

मोबाइल से बुक हुए 80 फीसदी से ज्यादा टिकट

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2023 से अभी तक 2023 तक कुल अनारक्षित टिकटों की बुकिंग में 80 प्रतिशत से भी अधिक मोबाइल टिकटिंग से बुक किए गए। इसी प्रकार इसी समान अवधि में लगभग 17 लाख से भी अधिक रेल यात्रियों ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप (TS on Mobile app) के द्वारा अनारक्षित टिकट की खरीदी कर यात्रा की। रेलवे प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि त्वरित घर बैठे आसानी से इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग तथा सीजन टिकट (एमएसटी) जारी व नवीनीकरण कराने की इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठावें।

सस्ता व सुगम परिवहन है भारतीय रेल

देश में भारतीय रेल को सस्ता, सुगम, सुरक्षित, एवं आरामदायक यात्रा के लिए पहचान मिली है। रेल यात्रियों के द्वारा परिवहन के साधन के रूप में भारतीय रेल पर सर्वाधिक विश्वास और भरोसा है और इस विश्वास को रेल द्वारा भी पर्याप्त सम्मान दी जाती है। यात्रियों द्वारा जताये गए इस विश्वास पर रेलवे कई दशकों से खरा उतर रही है। नवीन तकनीकों को निरंतर अपना कर भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती आ रही है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे को आज देश की जीवन रेखा कहा जाता है। यात्री सुविधाओं में डिजिटलीकरण का समावेश हमेशा से रेलवे का लक्ष्य रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सभी यात्रियों से अनुरोध करती है कि वे यात्रा टिकटों की खरीदी के लिए इन सुविधाओं का उपयोग कर अपनी यात्रा को सुगम बनाएं।

यूटीएस मोबाइल ऐप द्वारा सीजन टिकट (एमएसटी) बनाने के तरीके

- गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें तथा रजिस्ट्रेशन हेतु साइन अप करें।
- लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें तथा मेसेज के द्वारा प्राप्त चार अंकों के पासवर्ड का उपयोग करें।
- टिकटों के प्रकार का चयन करें। (यात्रा टिकट, सीजन टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट तथा यात्रियों की संख्या)
- टिकट के भुगतान हेतु R-Wallet का उपयोग करें। R-Wallet को डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यू.पी.आई जैसे पेटीएम, गूगल-पे, फोन पे आदि अथवा यू.टी.एस. काउंटर द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है।
- R-Wallet के अलावा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यू.पी.आई द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है।

खास खबर...

व्यापन की भर्ती परीक्षा 29 को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 29 अक्टूबर को आयोजित विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाएं राज्य के 31 जिला मुख्यालयों में दो पालियों में आयोजित होंगी।

परीक्षार्थी व्यापन की वेबसाइट लिंक Vyapamonline.cgstate.gov.in/online से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसए 23 भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 15 अक्टूबर को किया जाना था, उसे स्थगित करने के पश्चात अब यह परीक्षा 29 अक्टूबर को राज्य के 31 जिला मुख्यालयों में दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से 12.15 बजे तक सहायक प्रबंधक (फिल्ड ऑफिसर)/कार्यालय सहायक/सामान्य सहायक/समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) की भर्ती परीक्षा ली जाएगी, जबकि दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4.15 बजे तक कनिष्ठ प्रबंधक (2)/कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (ट्रेजरी विशेषज्ञ/मुख्य लेखापाल/उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा ली जाएगी।

विधानसभा चुनाव: 4515 सेवा मतदाताओं को ई-डाक मतपत्र जारी

रायपुर (ए।) विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप प्रेषित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई-डाक मतपत्र के माध्यम से किए जाने वाले मतदान के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु ई-डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। प्रथम चरण के लिए पंजीकृत 4 हजार 515 सेवा मतदाताओं को ई-डाक मतपत्र जारी किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए नाम वापसी के बाद से ठीक 24 घंटे तक ई-डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे तथा अगले सात दिवस तक उसे डाउनलोड करने का समय निर्धारित रहता है। संबंधित सेवा मतदाता उसे डाउनलोड कर अपने मत दर्ज करता है और उसे डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाता है। नियमानुसार 24 अक्टूबर को ई-डाक मतपत्र को डाउनलोड करने की शुरुआत हो चुकी है। 31 अक्टूबर को ई-डाक मतपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि होगी।

सेमिनार में रक्तदान के लिए किया जागरूक

रायपुर (ए।) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती में समाज कार्य विभाग एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान जागरूकता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में ओम साई रक्तदाता सेवा समिति के संस्थापक एवं संचालक एम. वासुदेव राव ने कहा कि हमें नियमित रूप से

रक्तदान करना चाहिए। इससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है।

उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाले लोग ही समाज के असली हीरो हैं। राव स्वयं 170 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस मौके पर ब्लड लेडी ऑफ इण्डिया के खिताब से सम्मानित अन्तरा गोवर्धन ने कहा कि उन्होंने सत्तर बार रक्तदान किया है, और उन्हें इस कार्य से बहुत आंतरिक खुशी मिलती है। कार्यक्रम में रक्तदान सेवा से जुड़े एम आशीष कुमार तथा

गौरम रावत सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ. वीके अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का एक सराहनीय माध्यम है। इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के सचिव तथा महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर डॉ. अमित अग्रवाल ने इस आयोजन को उद्देश्यपूर्ण बताया। प्राचार्य

डॉ. युलेंद कुमार राजपूत ने कहा कि रक्तदान मानव कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य है। इसमें युवाओं को खास तौर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होना चाहिये। कार्यक्रम में अंत में समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मो रफीक ने कार्यक्रम का संचालन प्रो. नीलू अग्रवाल ने किया। इसमें महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

नवरात्रि के बाद अंडे के बड़े दाम

रायपुर (ए।) नवरात्रि के जाने के बाद टंड की दस्तक के साथ ही अंडों में भाव खाना प्रारंभ कर दिया है। इसकी कीमत थोक में 5.50 से 5.75 रुपए और चिल्लर में 6.50 रुपए हो गई है। इस साल तो गर्मी में भी अंडों की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ा था आमतौर पर गर्मी में अंडे का भाव तीन से चार रुपए ही रहता है, लेकिन पहली बार थोक में जहां अंडा सवा पांच रुपए और चिल्लर में छह रुपए तक बिका है। अब तो टंड का समय है, इस समय कीमत हमेशा ज्यादा हो जाती है। टंड में खपत भी डबल हो जाती है। पिछले साल अपने राज्य में ही रोज 60 लाख अंडों की खपत हो रही थी। छत्तीसगढ़ का नाम भी ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है। यही वजह है कि यहां से दूसरे राज्यों में रोज अंडे जाते हैं। यहां कई बड़े पोल्ट्री फार्म हैं। इनमें लाखों की संख्या में अंडों का उत्पादन रोज होता है।

भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़वासियों का अपनी मातृभूमि और पर्यावरण, उसकी सुरक्षा और संरक्षण से सीधा जुड़ाव है- राज्यपाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़वासियों का अपनी मातृभूमि और पर्यावरण, उसकी सुरक्षा और संरक्षण से सीधा जुड़ाव है। यह बात छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 27 अक्टूबर 2023 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से राजभवन में आयोजित 'मेरी माटी मेरा देश- अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर कही। इस अवसर पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अपर महानिदेशक, अमित कुमार, महानिरीक्षक, साकेत कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक, बलराम बेहरा सहित सीआरपीएफ और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विरिष्ठ अधिकारी एवं स्वयं सेवक उपस्थित थे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ के लोग प्रकृति की गोद में बहुत करीब से रहते आये हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी युवाओं ने अपनी मातृभूमि को अंदर और बाहर के दुश्मनों से बचाने का रास्ता चुना है और सीआरपीएफ, भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं। इस प्रकार, मेरी



माटी मेरा देश टैगलाइन के साथ कार्यक्रम-मिट्टी को नमन-वीरो का वंदन, छत्तीसगढ़ में हमारे लिए और भी खास है, जिसमें हमारे युवा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहे हैं। हरिचंदन ने कहा कि प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार मिशन लाइफ (पर्यावरण स्थिरता के लिए जीवन शैली) की तर्ज पर, जलवायु परिवर्तन और मानवता पर इसके प्रभाव पर जोर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं को जलवायु, ऊर्जा, पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन को आगे बढ़ाना और तेज करना होगा। राज्यपाल ने खुशी जताते हुए कहा कि 09 अगस्त 2023 से लेकर आज तक विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए एनवाईकेएस और सीआरपीएफ के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं,

हम आजादी के 75वें वर्ष पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुणनाम नायकों की याद में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने सीआरपीएफ और एनवाईकेएस को इस अद्भुत पहल के लिए बधाई दिया और कहा कि यह न केवल युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी बल्कि सामुदायिक विकास गतिविधियों को भी बढ़ाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अपने वाले दिनों में, हम सभी उन बहादुर दिलों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्र-वीरोही तत्वों और बाहरी आक्रमणों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने बस्तर अंचल के परब नृत्य और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन करने वाले धमतरी के



सांस्कृतिक दल के साथ ही छत्तीसगढ़ के एनवाईके के युवा दल को भी शुभकामनाएं दीं जो मेरी माटी मेरा देश-राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अपर महानिदेशक, अमित कुमार ने बताया कि राज्य से अमृत कलश यात्रा की विदाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत 09 अगस्त को गयी थी। इस अभियान में पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए- इनमें वीरों की नाम पट्टिका लगाना, पंचप्रण, वसुधा को नमन, वीरों का वंदन, राष्ट्रीय ध्वज वंदन और राष्ट्रगान का गायन शामिल है। अमित कुमार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवाओं का जिऊ करते हुए बताया कि दो दशक पहले

छत्तीसगढ़ में निरक्षर समस्या के समाधान के लिए इस बल की तैनाती की गयी थी। उन्होंने बताया कि अब तक सीआरपीएफ के 446 जवानों ने सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया है और 371 नक्सलियों का खान्सा भी किया है। कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा संबंधी कार्यों के अलावा स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याण कार्य भी कर रही है। अमृत कलश यात्रा में शामिल नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 206 स्वयं सेवक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक, साकेत कुमार सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश-मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केन्द्र के सहयोग से आयोजित

किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अमृत कलश यात्रा का दायित्व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा गया है।

इस अवसर पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन, रायपुर के युवा कार्यक्रम अधिकारी अर्पित तिवारी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन और उद्देश्यों की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लिए यह गौरव की बात है कि उनके 206 स्वयं सेवक छत्तीसगढ़ के सभी गांवों और 146 विकासखण्डों से मिट्टी लेकर 30 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली जा रहे हैं, जहां कर्तव्य पाथ पर अमृत वाटिका आकार ले रही है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और राज्यगीत के गायन से हुई। इसके पश्चात् अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान धमतरी के लोक सांस्कृतिक दल संगवारी द्वारा बस्तर का लोक नृत्य 'परब' की प्रस्तुति दी गयी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के बलिदानि परिवारों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, रायपुर के युवा कार्यक्रम अधिकारी अर्पित तिवारी द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

नंदनी रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट पावर हाउस, भिलाई के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026, 8962815243

प्रीति ड्रेसिस
मेन्स एण्ड लेडिस वियर
जवाहर मार्केट, पावरहाउस, भिलाई
मो. 9589230033, 9993840094

● जीन्स
● टी-शर्ट
● शर्ट
● ट्रिउजर
भारत जीन्स
जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई

आरना इंटरप्राइज
कांठवाला वाटरपरी फायरके विक्रेता एवं सुधारक
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं सीसीटीवी केमरा के विक्रेता व सुधारक
सर्कुलर मार्केट के-2, भिलाई, न्यू जेपी स्टॉक के सामने
7828844440, 9993045122
नया बस स्टैंड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 099831370285, 9302833333

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
अनुप ट्रेडर्स
सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोद इंटरप्राइज
गेंहू, चावल एवं दाल के थोक विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग
फोन: 0788-2225449, 93290-13017

Hotel Shiv Prabha Inn. & Town King The Family Restaurant
46-C Market, Near Sapana Talkies & Hotel Apana Keshari Lodge, Power House, Bhitai, Distt.-Durg (C.G.)
9893215251, 8966981590
Email: ranjanaguptakeshari@gmail.com

BIHAR BOOT HOUSE
Jawahar Market, Power House, Bhitai 9826181183

डिलीवरी के बाद अपनी डाइट में शामिल करें ये 10 आहार शरीर को मिलेगी ताकत

मां बनना किसी भी स्त्री के लिए किसी दूसरे जन्म से कम नहीं है। बच्चे को जन्म देना महिला के लिए एक ऐसा अनुभव होता है जिसे केवल महिला ही महसूस कर सकती है। महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। डिलीवरी के बाद महिला का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्योंकि लगातार ब्लिडिंग, पेट पर लगे टॉके, बॉडी में दर्द के कारण महिला बहुत ज्यादा दिक्कत का अनुभव करती है। इसलिए डिलीवरी के बाद महिलाओं को डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार के जरिए ही महिला का शरीर जल्दी रिकवर होता है और उसकी कमजोरी भी दूर होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आहार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर शरीर को ताकत दी जा सकती है। आइये जानते हैं इन आहार के बारे में...

अखरोट

अखरोट में एंटीऑक्सिडेंट, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक बड़ा स्रोत होता है, साथ ही अखरोट हृदय और मस्तिष्क के लिए भी सेहतमंद माना जाता है। एक नई माँ के लिए अखरोट खाना सबसे अच्छे प्रकार के नट्स में से एक है। अखरोट को रातभर भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खाएं। यह काफी फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट भिगे हुए अखरोट खाने से आप कई बीमारियों से बच सकती हैं।

देसी घी

प्रसव के बाद देसी घी का सेवन भी महिला के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि देसी घी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। महिला रोटी पर लगाकर, हलवा बनाकर, सब्जियों में डालकर व अन्य तरीकों से घी का सेवन कर सकती हैं। नोर्मल डिलीवरी तुरंत बाद से ही महिला घी का सेवन शुरू कर सकती हैं लेकिन सिजेरियन डिलीवरी होने पर और नोर्मल डिलीवरी के दौरान टॉके आने पर महिला को एक बार डॉक्टर से राय लेने के बाद ही घी का सेवन शुरू करना चाहिए।

खसखस के लड्डू

डिलीवरी के बाद शरीर में दर्द और सूजन की शिकायत रहती है तो आप खसखस का लड्डू घर में बनाकर खाएं। इसके सेवन से भी मांसपेशियों का दर्द दूर होता है और शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। डिलीवरी के बाद खसखस के लड्डू, खसखस का सूप, खसखस का हलवा या इसे दूसरी चीजों में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है।

ओट्स

प्रसव के बाद अगर आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को सेवन करना चाहती हैं, जो एनर्जी बूस्ट करे, तो ऐसे में आप ओट्स को अपने आहार का हिस्सा अवश्य बनाएं। आप इसे नाश्ते में खा सकती हैं। ओट्स जैसे होल ग्रेन फूड धीमी गति से रिलीज होने वाले कार्ब्स होते हैं, जो आपकी ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखते हैं। इतना ही नहीं, ओट्स में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं और यह शरीर में आवश्यक आयरन के स्तर को बनाए रखने में मददगार है। साथ ही, ओट्स आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं।

गोंद के लड्डू

यह मां के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों मां अंदर से कमजोरी होती है। गोंद के लड्डू मां को ताकत देते हैं। इसके साथ ही मां को स्तनपान कराना होता है। गोंद के लड्डू खाने से मां का दूध बढ़ता है, जिससे बच्चे को दूध की कमी नहीं होती है। आप रोजाना एक लड्डू दूध के साथ खाएं।

सेब

ये फल 12 महीने बाजार में उपलब्ध रहता है। ऐसे में अगर आप बहुत कमजोरी महसूस कर रही हैं, तो आपको तुरंत सेब खाना चाहिए। सेब खाने से शरीर में तुरंत ऊर्जा आती है। इसके अलावा, इसमें पर्याप्त एंटीऑक्सिडेंट गुण भी होते हैं। जो आपको कई और बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। इसके साथ ही, यह आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

सौंफ का पानी

प्रसव के बाद डाइजेशन की समस्या रहती है और पेट में गैस बनना, कब्ज जैसी समस्या हो



सकती है। पेट में जलन आदि भी रहती है। ऐसे में अगर रोज एक गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ को उबालकर इसे पिया जाए तो काफी राहत रहती है।

हरिद्रा

हर क्षेत्र में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह ड्राई फ्रूट्स, अदरक और आटे जैसी चीजें मिलाकर बनाया जाता है। इसे गर्म-गर्म खाया जाता है। डिलीवरी के बाद सवा महीने इसे जरूर खाना चाहिए। यह मां को रिकवर करने में मदद करता है। इसके सेवन से

मां का दूध अच्छा आता है और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी यह काफी लाभकारी होता है।

अजवाइन का पारात

डिलीवरी के बाद अजवाइन खाने से पेट की समस्या दूर रहती है और दर्द कम होता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर को अंदर से हील करने में मदद करती हैं। इसके अलावा गेंहू के आटे और अजवाइन में खूब फाइबर होता है जो पाचनक्रिया दुरुस्त रखने का काम भी करता है।

मूंग-मसूर की दाल

छिलके वाली मसूर की दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। खासकर डिलीवरी के बाद महिला को यह जरूर खानी चाहिए, क्योंकि यह आसानी से पच जाती है। इसमें फाइबर होता है, जो कि मां को कब्ज होने से बचाए रखता है। इसे खाने से न तो मां को दिक्कत होती और न ही शिशु को कोई परेशानी होती है। इसके विपरीत यह दाल खाने से मां का दूध बनता है, जो बच्चे के लिए लाभकारी है।

मेकअप का जरूरी हिस्सा है ब्लश स्किन टोन के अनुसार करें इसका चुनाव

मेकअप करना हर महिला को पसंद होता है जो उनके रूप को संवारने में मदद करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेकअप में कुछ जरूरी चीजों को शामिल करें। ऐसी ही एक है ब्लश जो मेकअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चाहे आप मेकअप के ऊपर लगाएं या सिर्फ स्किनकेयर बेस लगाने के बाद, चिक्स पर लगाएं या चिक्सबोन पर, इसके जुड़ते ही आपके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आ जाती है और चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। यह एक रिफ्रेशिंग लुक देता है, लेकिन यह आपकी स्किन पर तभी अच्छा लगता है, जब आप सही तरह से इसका इस्तेमाल करें। आज इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह की स्किन के लिए कौनसा ब्लश बेहतर रहेगा और इसे लगाने का सही तरीका क्या है। आइये जानते हैं इनके बारे में...

फेयर स्किन टोन

ब्लशर फेस को आकर्षक बनाने के साथ चिक बोन को उभारने का काम भी करता है। ब्लशर का चुनाव हमेशा स्किन टोन के अनुसार करना चाहिए। इससे मेकअप फरफेक्ट लगता है। जैसे गोरी या पीली स्किन वालों को लाइट पिंक या

पीच कलर का चुनाव करना चाहिए। पिंक कलर मेकअप को नेचुरल लुक देगा। जैसे तो गोरी रंगत वाले किसी भी लाइट कलर का चुनाव कर सकते हैं लेकिन डेस और लिपस्टिक के कलर का चुनाव उनके मेकअप को आकर्षक लुक दे सकता है।

मीडियम स्किन टोन

मीडियम स्किन टोन वाली महिलाओं के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अलग-अलग लुक को हासिल करने के लिए आप बहुत सारे शेड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। पिंक या पीच कलर आपकी स्किन को एक नेचुरल लुक देता है, वहीं अगर आप एक बोर्ड लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो ऐसे में आप चमकीला गुलाबी रंग शेड को चुन सकती हैं। इस तरह आप कई तरह के कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने मेकअप में डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकती हैं।

डार्क स्किन टोन

डार्क स्किन टोन वाली महिलाएं मेकअप और ब्लश को लेकर काफी कंप्यूज रहती हैं। डार्क स्किन टोन की महिलाओं को ऐसे शेड्स का चुनाव करना चाहिए जो उनकी रंगत को निखार

सके न कि डल और दबा हुआ दिखाए। डार्क स्किन वालों को बोल्ड कलर्स का चुनाव करना चाहिए। ये कलर वॉर्म अंडरटोन के साथ परफेक्ट लुक देते हैं। गालों को उभारने के लिए ऑरेंज कलर का भी चुनाव किया जा सकता है।

ब्लश लगाने का सही तरीका

फाउंडेशन का बेस तैयार करने के बाद ब्लश लगाना चाहिए। ब्लश के लिए एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। ब्रश पर ब्लशर लें और गालों पर लगाने से पहले अपने हाथ पर डेब करें और उसके बाद इसे गालों पर लगाएं। इससे एक्ससेस ब्लश हाथों पर रह जाएगा और गाल पर ब्लेंडिंग आसान होगी। ब्लशर लगाने के बाद उसे ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करना न भूलें। ब्लशर हमेशा कान से गाल की तरफ लाएं। चिकबोन से नीचे लगाते हुए इसे कान की तरफ ही ब्लेंड करें।

ब्लशर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

ब्लशर का यूज बहुत ज्यादा या गहरा न करें। ब्लशर केवल आपके गालों को हाइलाइट करने के लिए होते हैं। यदि इसे ज्यादा लगाया जाए तो ये मेकअप को बिगाड़ सकता है। ब्लशर को

हमेशा कान से नाक की ओर लाएं। चिकबोन से नीचे की ओर गालों के पास इसे लगाना चाहिए। एक अच्छा ब्रश इसे लगाने और ब्लेंड करने के लिए होना जरूरी है।

ब्लशर के साथ लगाएं ये चीजें

ब्लशर लगा कर आप ये न सोचें की आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। ब्लशर के साथ चिकबोन के पास ऊपरी तरफ हाईलाइटर का प्रयोग जरूर करें। यदि ऐसा न किया जाए तो आपका चेहरा सपाट सा नजर आएगा। हाईलाइटर आपके फेस के उन हिस्सों को उभारता और शेप देता है, जिससे आपका मेकअप चेहरे पर ओवरपावर नहीं होने पाता।

चिक बोन के ऊपरी हिस्से, माथे, नाक और टुड्डों के पास हाईलाइटर लगाने के बाद ही आपका मेकअप कंप्लीट होता है।

बहुत अधिक प्रोटीन लेने से नजर आते हैं ये संकेत

कहते हैं कि किसी भी चीज की अति क्षति का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ हमारे आहार व पोषक तत्वों के साथ भी होता है। शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का आहार में होना आवश्यक है। लेकिन जिस तरह इनकी कमी से आपको परेशानी होती है, ठीक उसी तरह इनकी अधिकता भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब आप किसी भी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में लेते हैं तो यह भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहे हैं, जो यह बताते हैं कि आप आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं-

वजन बढ़ना:- वेट लॉस के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है। लेकिन



जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह वेट गेन की समस्या को जन्म दे सकता है। खासकर अगर प्रोटीन हाई फेट सोर्स जैसे रेड मीट से आ रहा हो।

बॉडी में डिहाइड्रेशन होना:- जब आप अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो इससे उसे

पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना जरूरी होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इससे हाई प्रोटीन के कारण आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। इसलिए, अगर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है तो हो सकता है कि आप आवश्यकता से

अधिक प्रोटीन ले रहे हों।

किडनी की समस्या:- बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन करना आपकी किडनी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, जब आप बहुत अधिक प्रोटीन लेते हैं तो इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभी तो इसके कारण किडनी भी खराब हो सकती है।

कब्ज की समस्या होना:- अगर आप अपनी डाइट में आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है। दरअसल, प्रोटीन का अधिक सेवन कब्ज पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे आपको पेट की परेशानी, सूजन और गैस हो सकती है।

BANK P.O. & CLERK, MBA, RLY, SSC.

Paul Sir

रामा कोचिंग

135, NEW CIVIC CENTER, Bhalai Ph. 0788-6560005

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

वेन्टेक्स एवं ग्रहहस्त उपलब्ध यहां उचित ब्याज दर पर धारवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

दुर्गा, सुपेला और कोहका प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-

9303289950, 9827806026, 8962815243

मास्टर ट्रेनर्स अपने दायित्वों का निष्पक्षता से करें निर्वहन -कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज कलेक्टरेट के सुजन सभाकक्ष में अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर सभी मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रिया के साथ ही ईवीएम, वीवीपीएटी के संचालन एवं सीलिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिला मास्टर ट्रेनर्स भी शामिल रही।



पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की हस्त-पुस्तिका का भली-भाँति अध्ययन करें, ताकि सभी प्रकार की शंकाएँ दूर हो सकें। ईवीएम व वीवीपीएटी के कनेक्शन, परिचालन, मॉकपोल आदि को भली-भाँति सीख लें, जिससे मतदान दिवस पर किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण कर सकें।

जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान दल के कार्य एवं मतदान सामग्रियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सामग्रियों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी नंबरडॉट होते हैं, इसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं उसकी जानकारी दी गई। इसी प्रकार मतदान सामग्री सीलिंग, अन्वी मतदान के पूर्व की तैयारी, आदर्श

मतदान केंद्र ले आउट की जानकारी देते हुए उन्होंने मतदान के दिन की प्रक्रिया-ईवीएम जोड़ना, मॉकपोल, सीआरसी करना कितना आवश्यक है बताया। साथ ही ईवीएम एवं वीवीपीएटी सील जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ही मतदान के दिन के कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए, सावधानियों के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

मतदान केंद्रों पर रहेगी एएसडी सूची फर्जी वोटों को रोकने के लिए बूथवार एएसडी (अब्सेंट शिफ्टेड या डेड) वोटों की सूची तैयार होगी। इस बार मृत व्यक्ति के जगह फर्जी वोट वोगस वोट नहीं कर पाएँगे। संशोधन के बाद भी मतदाता सूची में ऐसे वोटों को रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने नई पहल की है। ऐसे फर्जी

वोटों को रोकने के लिए बूथवार एएसडी वोटों की सूची तैयार होगी। निर्वाचन के दिन यह एएसडी सूची पीठासीन पदाधिकारी के पास होगी। यह सूची निर्वाचन से पहले बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन के बाद तैयार करेंगे। सूची में ऐसे मतदाताओं का बूथ संख्या, गृह संख्या, क्रमांक आदि का विवरण होगा। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के तहत आज विधानसभा क्षेत्र 15-लैलूंगा के मतदान दलों को सामग्री वितरण/वापसी कार्य के लिए नियुक्त दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री डी.आर.राजे, एएसडीएम लैलूंगा श्रीमती श्यामल ठाकुर उपस्थित रही।

जिला मास्टर ट्रेनर श्री राजेश डेनियल एवं मास्टर ट्रेनर श्री विकास रंजन सिन्हा ने वितरण/वापसी कार्य के लिए नियुक्त दलों को वितरण व वापसी की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्रियों की जानकारी देते हुए क्रमशः बताया कि नंबरडॉट आइटम एवं नॉन नंबरडॉट आइटम की सामग्रियों के क्रमांक वितरण काउंटर प्रभारी के रजिस्टर में संभारित होंगे तथा प्रदान करते समय पीठासीन अधिकारी के पावती हस्ताक्षर लिए जायेंगे।

मतदाता जागरूकता के लिए चिल्हाटी में निकली बाईक रैली

श्रीकंचनपथ न्यूज

मोहला। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77 खुज्जी ब्लॉक अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में मतदाता जागरूकता के लिए आज यहाँ ऊर्जा एवं उल्साह के साथ भव्य बाईक रैली निकली गई। इस अवसर पर स्थानीय शासकीय हाई स्कूल मैदान से मतदाता जागरूकता हेतु नारा बोलते-बोलते पुरे चिल्हाटी का भ्रमण कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित इस बाईक रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों ने बाईक चलाकर नागरिकों को शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया।



बाईक रैली में युवाओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर स्वीप नोडल अधिकारी हेमंत ठाकुर ने लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संकुल संगठन 38 गांव के 30 समूह के बिहान समूह की महिलाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा रंगोली, नारा लेखन, स्लोगन एवं कलश रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया।

स्वीप नोडल अधिकारी हेमंत ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 7 नवंबर को होने जा रहे मतदान में भागीदार बनने प्रेरित किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपने साथ ही अपने आस-पास के सभी नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करें। साथ ही निर्वाचन कार्य में अपनी सहभागिता देने आगे आएं। 80 वर्ष के दिव्यांग, बुजुर्ग, के लिए घर-घर जाकर पोस्टल बैलेट के बारे में जागरूक करें। उन्होंने यहां उपस्थित बिहान समूह की महिलाओं से कहा कि अपने आस-पास के सभी लोगों को मतदान करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। अपने देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने सभी को जागरूक कर मतदान दिवस को भयमुक्त एवं बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने आगे आएं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.के.बंजारे, जनपद कायदा अंबागढ़ चौकी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियवंदा रामटेके, बीएमए अंबागढ़ चौकी आर.आर. ध्रुव सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

पटाखा दुकानदार, दीपावली त्यौहार पर रखें सावधानी



श्रीकंचनपथ न्यूज

सूरजपुर। दीपावली त्यौहार के समय अग्निशमन वाहनों, अग्निशमन उपकरणों, अग्निशमन सेवा में तैनात समस्त वाहन चालक एवं अग्निशमन कर्मचारियों तथा सहायता हेतु नगर सैनिक अलर्ट मोड पर रहेंगे। इसके साथ ही जिला सेनानी स्वयं मुख्यालय में उपस्थित होकर सतत निगरानी करेंगे। जिसमें अग्नि सुरक्षा संबंधी तथ्यों पर बारिक नजर रखी जायेगी। इस सुरक्षा संबंध तथ्यों का पालन करना पटाखा दुकानों का समय पर निरीक्षण भी किया जायेगा। यह सभी पटाखा दुकानदारों के लिये अनिवार्य होगा। पटाखा दुकानों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी - पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक सामने न बनाई जाएं। दूसरे के पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में पयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकान ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मार्क क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकान की सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 से 10 बजे (राश आँवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

तैल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में पयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकान ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मार्क क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकान की सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 से 10 बजे (राश आँवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्वस दमा संबंधी रोगों से निजात दिलाने दित्य औषधि का वितरण

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। अरसे से श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हजारों रोगियों को 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्वस दमा रोग से मुक्ति हेतु सेवन की जाने वाली चित्रकूट की प्रसिद्ध दित्य औषधि का निशुल्क वितरण पंतजलि चिकित्सालय निहारिका, शिव औषधालय मेन रोड कोरबा, श्री शिव औषधालय ए.आई.जी.20 आर.पी. नगर फेस 2 कोसाबाड़ी निहारिका कोरबा, शिव हबल अल्का कॉम्प्लेक्स टीपी नगर, एवं शिव औषधालय साडा कॉलोनी जमनीपाली द्वारा किया गया।

इस संबंध में संस्थान के प्रमुख चिकित्सक डॉ. नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि वंशानुगत और प्रदुषण जन्म कारणों से श्वस दमा सम्बंधी रोगियों को संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें विभिन्न तरह के उपचार



पद्धतियों से उपचार करने के बावजूद रोगी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो लोगों को वर्षों से विशुद्ध एवं निरापद चिकित्सा प्रदान कर रही है। जिसमें श्वस दमा संबंधी रोगों से निजात दिलाने के लिए हर तरह के दुष्प्रभाव से रहित एक चमत्कारिक औषधि जो की चित्रकूट के महात्मा जी द्वारा वर्षों के अनुसन्धान के पश्चात् तैयार की गई है जिसका नियमपूर्वक उपयोग शरद पूर्णिमा में करने पर शत प्रतिशत लाभ होता है।

इसी दित्य औषधि का हमारे पांचों संस्थानों पंतजलि चिकित्सालय निहारिका, शिव औषधालय मेन रोड कोरबा, श्री शिव औषधालय ए.आई.जी.20 आर.पी. नगर फेस 2 कोसाबाड़ी निहारिका कोरबा एवं शिव औषधालय साडा कॉलोनी जमनीपाली द्वारा निशुल्क वितरण किया गया जिसे कोरबा जिले के ही नहीं अपितु जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, अंबिकापुर, कोरिया,

धान खरीदी केंद्र के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु जिला नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर ने ली धान खरीदी की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुन्द। कलेक्टर प्रभात मलिक ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर खाद्य, मार्केटिंग, मंडी, कृषि व सहकारिता से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देश के तहत जिले में धान खरीदी सुनिश्चित हो। उन्होंने इसके लिए सभी तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने धान खरीदी केंद्र के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, उपाजित धान के भुगतान के लिए आवश्यक राशि, बारदाने



एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उपाजित केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं अनुविभागीय स्तरीय अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि

महासमुन्द जिले के सभी 182 धान उपाजित केंद्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 01 नवम्बर से शुरूआत हो जाएगी। जिले में कुल 182 धान उपाजित केंद्रों में

विकासखण्ड महासमुंद में 37, बाबाबहारा में 32, पिथौरा में 44, बसना में 36 व सरायपाली विकासखण्ड में 33 धान उपाजित केंद्र स्थापित हैं। कलेक्टर ने जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को धान उपाजित की संभावित तिथि के पूर्व आर्बिट केंद्रों का निरीक्षण कर चेक लिस्ट अनुसार प्रारंभिक तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान खरीदी की अवधि के दौरान प्रति सप्ताह कम से कम एक बार प्रत्येक आर्बिट केंद्रों का पर्यवेक्षण कर शासन की नीति-निर्देशों के अनुसार धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया संचालित कराए जाने तथा केंद्र में उपलब्ध धान के स्टॉक एवं नए-पुराने धानदानों का सत्यापन किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं।

मताधिकार का उपयोग करने लोगों को किया गया जागरूक

श्रीकंचनपथ न्यूज

गरियाबंद। जिले में स्वीप कार्यक्रम व चुराई तिहार 2023 अंतर्गत शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर आकाश छिक्रा के मार्गदर्शन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव के नेतृत्व में विशेष अभियान संकल्प गरियाबंद चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत प्रतिदिन विविध मतदाता जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियाँ संपादित की जा रही हैं। इसके तहत आज जिला



मुख्यालय के बीच स्थित प्रमुख बाजार बस स्टैंड में लोगों ने शत प्रतिशत मतदान की शपथ ली। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव ने

लोगों को मताधिकार का उपयोग करने जागरूक करते हुए उन्हें संकल्प दिलाया। इसमें ऑटो चालकों, बस चालकों, टैक्सी चालकों द्वारा गाड़ियों की गोल श्रंखला बना कर साथ ही मानव चौंन बना कर शपथ ली गयी। शपथ में व्यापारीगण, शहरवासी, ग्रामीणों एवं जिलेवासियों सहित जिला पंचायत व नगरपालिका के अधिकारी - कर्मचारियों ने उपस्थित होकर शत प्रतिशत मतदान हेतु एक साथ संकल्पित हुए। साथ ही मतदान के लिए अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने के लिए जागरूक हुए।

निर्वाचन कार्य में संलग्न महिला कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी सभी मूलभूत सुविधा - कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज एनआईटी और पॉइंट रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में चल रहे मतदान अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में उपस्थिति अधिक से अधिक रहे। सभी अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता से मास्टर ट्रेनर की बात सुने और ग्रहण करें। जितने अच्छे से आप प्रशिक्षण लेंगे उतने ही कुशलता से निर्वाचन कार्य को संपन्न कर पाएंगे। डॉ भुरे ने कहा कि हमारा प्रयास है कि निर्वाचन कार्य में महिला अधिकारी-कर्मचारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करती हैं।

Jaquar Roca **Parywan** **AJAY FLOWLINE**

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

CAR DECOR

House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower, Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

SAIRAM

Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES

FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेंट्स

जॉस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं फिट्स वियर, अंडर गार्मेंट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन

एक बार अवश्य पधारें

गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok JEWELLERY

Gifts • Toys • Cosmetics Perfumes • Sia Jewellery

Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai

Hello: 0788-4052727

Mukesh Jain 9009959111 Rishabh Jain 8103831329

खास-खबर

जगदलपुर के होटल में विदेशी नागरिक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के एक इंटरनेशनल होटल में विदेशी नागरिक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। घटना शुकवार को बताई जा रही है। देर शाम सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल विदेशी नागरिक की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि धरमपुर मार्ग पर स्थित इंटरनेशनल होटल में कुछ दिन पहले एक विदेशी नागरिक आकर रुका हुआ था। शुकवार की रात को जब होटल के कर्मचारी ने कमरे में दस्तक दी तो किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं आई। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी होटल मैनेजमेंट को दी, जहां विदेशी नागरिक मृत अवस्था में दिखा। इसके बाद स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि शायद विदेशी नागरिक को हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और होटल में जांच जारी है। वहीं, मामले में शनिवार को विदेशी नागरिक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि विदेशी नागरिक की मौत किस वजह से हुई है।

अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ाया बदमाश, पुलगांव पुलिस की कार्यवाही

दुर्ग। पुलगांव पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम बोर्ड शनिचरी बाजार चौक तालाब के पास में शराब बिक्री कर रहा है। शराब की अवैध बिक्री को टीएम मोके पर पहुंची। शनिचरी बाजार चौक तालाब के पास घेराबंदी कर शराब बेचने वाले को पकड़ा गया। संदिग्ध से पूछताछ करने पर अपना नाम नेतराम साहू पिता देवी सिंह 33 साल निवासी बोर्ड का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जे से 10 पोचा देशी मदिरा मसाला एब्ब 20 पोचा देशी प्लेन कीमती 2700 रूपए एवं बिक्री रुकम 1580 रूपए जप्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

तालाब में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

लखनपुर (ए)। लखनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बेलदगी के राजतालाब में एक महिला की लाश मिली। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात्रि 9 बजे बेलदगी कोयला पारा निवासी घर के सभी परिवार नजदीक में ही दशहरा देखने शंकर घुंटा गए हुए थे।

संतोषी कोरवा पति उदित कोरवा (45 वर्ष) रात को घर में अकेली थी। आशंका जताई जा रहा है कि महिला शौच के लिए बाहर निकली हुई थी, लेकिन घर फिसलने से तालाब में जा गिरी होगी। सुबह ग्रामीणों के द्वारा देखा गया कि पानी में एक महिला का शव तैर रहा है। उनके परिजनों को जानकारी दी गई। परिजनों के द्वारा पुलिस थाना लखनपुर में जानकारी दी गई, जहां पुलिस मर्मा कौयम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए लखनपुर लाया गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण से मौत हुई है। पुलिस जांच में जुटी है।

चुनाव जांच अभियान में आबकारी विभाग की कार्रवाई अब तक 2 करोड़ की अवैध शराब व नशीली सामग्री जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग के द्वारा राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से 9 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2023 तक सघन कार्यवाही अभियान चलाकर 2038 छापे मारे गए हैं। इस दौरान 929 प्रकरण दर्ज कर 825 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विभाग ने इस दौरान 11 हजार 833 लीटर मदिरा जब्त की है जिसका बाजार मूल्य 35 लाख 36 हजार 104 रूपए है।

विभाग ने इस अवधि में 59 लाख 90 हजार 600 रूपए कीमत का महुआ लाहन एवं गांजा भी जब्त किया है। आबकारी विभाग द्वारा इन कार्यवाहियों के दौरान 45 वाहन भी जब्त किए गए हैं जिनका बाजार मूल्य एक करोड़ एक लाख



57 हजार रूपए है। राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से आबकारी विभाग ने इस तरह से कुल एक करोड़ 96 लाख 83 हजार 704

एजेंसियों की बैठक लेकर दिए थे निर्देश

बता दें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए 9 अक्टूबर 2023 से लागू की गई आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में तथा आयोग द्वारा विगत अगस्त माह में प्रवर्तन एजेंसियों की ली गई। समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त महादेव कावेर द्वारा आबकारी विभाग के सभी उडनदस्तों तथा सभी जिलों के अधिकारियों को समस्त आसथनी, बाटलिंग युनिट, क्लरि तथा सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में सतत जांच कर निगरानी रखने तथा मदिरा के अवैध संग्रहण एवं परिवहन के संभावित स्थलों का चिन्हंकन कर अवैध मदिरा के धारण, परिवहन एवं वितरण पर कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान चलाने तथा संचालित जांच चोकियों में जांच बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी विभाग के 31 चेकपोस्टों में अन्य राज्य से अवैध शराब का परिवहन रोकने के लिए वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। आबकारी अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोड चेकिंग के साथ ही रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डों

और बसों पर भी जांच की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा टोल-फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अवैध मदिरा से संबंधित या मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

रायपुर के पंडरी इलाके में फांसी पर लटकी मिली लाश

मारपीट कर हत्या की आशंका, चुनाव के लिए ट्रेनिंग में लगी थी इयूटी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर (ए)। रायपुर के पंडरी थाना इलाके में एक युवक की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली है। मृतक के शरीर के कपड़े भी चुरी तरह फटे हुए थे। बताया जा रहा है कि शुकवार को उसकी चुनाव के लिए ट्रेनिंग भी थी। इसके पहले ही उसकी मौत हो गई। पंडरी पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आत्महत्या की ही संभावना लग रही है।

जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम वेद प्रकाश चंद्रवंशी है। वो खरोरा का रहने वाला था। शुकवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पंडरी के IFC गोदाम के पास एक युवक की लाश पेड़ पर



लटकी हुई है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अंबेडकर अस्पताल भिजवाया।

मृतक के कपड़े फटे हुए मिले

वेद प्रकाश की लाश पेड़ पर नायलोन की रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। उसने

सफेद रंग के कपड़े और जूते पहने हुए थे। उसकी शर्ट सामने से पूरी तरह फटी हुई थी। साथ ही जमीन पर भी कुछ कपड़े पड़े हुए मिले। इनमें गंदगी भी लगी दिख रही है।

मारपीट के बाद लटकाने की आशंका

युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उसके फटे कपड़ों से ये लग रहा है कि मौत से पहले मारपीट हुई होगी। फिर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। तभी ये बात साफ होगी कि वेद प्रकाश ने सुसाइड किया है या उसकी हत्या कर लाश को लटका दिया गया।

गोबाइल दुकान में घुसकर झगड़ा और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ (ए)। थाना लैलूंगा में गांधी नगर निवासी शंभू सारथी (30) ने शुभम भगत निवासी ग्राम करवाजोर के खिलाफ आसक्की मोबाइल दुकान में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि थाने के सामने मेन रोड पर मोबाइल केयर नाम से दुकान है। 26 अक्टूबर शाम शुभम दुकान आया। सामने खड़े ग्राहक की बाइक में अपनी बाइक को सटकर खड़ी की। अपना मोबाइल चार्ज करने दुकान में दिया। इसी समय ग्राहक हुरदामंद पटेल ने बाइक हटाने कहा तो शुभम भगत ने कहा, बाइक उसकी नहीं है और विवाद करने लगा। मना करने किया तो गाली-गलौज की और दुकान में तोड़फोड़ की। अंदर घुसकर हाथापाई की और धमकी देकर चला गया। थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी शुभम भगत पिता राजकुमार भगत उम्र 20 साल निवासी ग्राम करवाजोर थाना लैलूंगा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

बाइक पर बेशर्मी पड़ गई भारी

यातायात पुलिस ने काटा युवक का चालान, पैरेंट्स की लगाई क्लॉस


श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सड़क पर बाइक चलाते हुए बेशर्मी करना प्रेमी जोड़े के लिए भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक के नंबर से मालिक का पता लगाया। जब बाइक के मालिक को यातायात टॉवर बुलाया गया तो पता चला कि उन्होंने अपनी बाइक मेंटैनेंस के लिए दी थी और इस दौरान मेकेनिक उसकी बाइक को लेकर गया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मेकेनिक युवक को बुलाया और उसके पैरेंट्स के सामने उसकी क्लॉस ली। यातायात गोपाल गंग द्वारा यातायात पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

बता दें सड़क पर गलत तरीके से बाइक चलाने, स्टंटबाजी करने व गलत काम करने वालों की शिकायत के लिए यातायात विभाग द्वारा वाट्सएप नंबर 9479192029 जारी किया गया। इसी नंबर पर गुरुवार शाम को एक वीडियो भेजा

गया जिसमें युवक युवती बाइक पर बेशर्मी कर रहे थे। सड़क पर इस तरह की हरकत देखने वालों पर विपरीत प्रभाव डालती है। वीडियो मिलने के बाद एसपी राम गोपाल गंग द्वारा यातायात पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

एसपी के निर्देश के बाद यातायात डीएसपी सतीष ठाकुर ने मोटर सायकल क्रमांक सीजे 07 बीजेड 8716 को डिटेन निकाली। इसके बाद वाहन मालिक को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर



बुलाया गया। वाहन मालिक को वीडियो दिखाए जाने पर उन्होंने बताया कि बाइक चलाने वाला लडका मेकेनिक का काम करता है। दो दिन पहले उन्होंने अपना वाहन बनाने दिया था। इसके बाद यातायात पुलिस ने युवक व उसके परिजनों को यातायात मुख्यालय बुलाया। मौके पर मोटर क्लिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4000 रूपए का चालान किया गया। यही नहीं यातायात पुलिस ने युवक के परिजनों को भी समझाया है।

रेलवे स्टेशन में चुनावी जांच, अब तक 12 लाख का गांजा व सवा लाख की शराब जब्त

बिलासपुर (ए)। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों में अन्य राज्यों से आयात/निर्यात होने वाले पार्सल की जांच की जा रही है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक आरपीएफ 12 लाख रुपये का गांजा, सवा लाख रुपये कीमत की शराब के अलावा नकद भी बरामद किया है। इस अभियान के दौरान बिलासपुर मंडल द्वारा अवैध परिवहन की रोकथाम के तहत मादक पदार्थ कांजा के 10 मामलों से 87.04 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख 11 हजार रुपये हैं। इसके अलावा 11 मामलों में शराब तस्करी के पकड़े गए हैं।



अब तक एक लाख 33 हजार 850 की शराब आरपीएफ जब्त कर चुकी है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग के साथ आरपीएफ पार्सल कार्यालय व बाहर से आने वाले पार्सल सामान की नियमित जांच कर रही है। इस जांच अभियान के दौरान 21 अक्टूबर को 18113 टाटा-इतवारी एक्सप्रेस में टाटागनर से बिलासपुर तक जनरल गुड्स आयटम के रूप में बुक पार्सल की जांच करने पर उसमें 10 बंडल 14

लाख 40 हजार रुपये के सिगरेट जब्त किए। इस मामले में आरपीएफने रेलवे अधिनियम की धारा 163 के तहत अपराध दर्ज किया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस अभियान के दौरान 26 अक्टूबर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पांच लाख रुपये नकद बरामद कर प्रभारी उडनदस्ता चुनाव दल को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंपा गया। यह अभियान मतदान तक जारी रहेगा।

सेक्टर-6 एंव रिसाली के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-

9303289950, 9827806026, 8962815243

Galaxy Granite
WholeSaler & Retailer
All Type Of Tiles : Wall Tiles, Floor Tiles, Granite Sanitary & Null Fitting
सभी प्रकार के टाइल्स और ग्रेनाइट मिलने का एक मात्र स्थान कोई भी टाइल्स लेने से पहले एक बार अवश्य पधारें...
Raja Steel Traders, Krishna Talkies, Road, Side of ZEE Maha Sale, Risali, Bhalai - 490006
K.K. Soni - 77479-88643, 9109509095

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, आचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षों से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge
Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Colour etc.
रायपुर ट्रेडर पर्य | Rakesh Sahu
माल उपलब्ध | 9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhalai - 490006

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhalai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भारतीय बैग हाउस
फेंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, स्फर बैग, लेपटॉप बैग, फेंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता : 93003-77572

